



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1935 (श0)

(सं0 पटना 86)

पटना, शुक्रवार, 17 जनवरी 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

18 अक्टूबर 2013

सं0 1303—मधुबनी जिलान्तर्गत श्री मुरली मनोहर जी ठाकुरवाड़ी, ग्राम—चाँदी टोल दहिवत माधोपुर, अंचल—पण्डौल, पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—1336 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था एवं सुचारु प्रबन्धन एवं सम्यक् विकास हेतु पर्षद द्वारा अंचलाधिकारी, पण्डौल, मधुबनी से इस न्यास के न्यासधारी दुर्गानन्द ठाकुर के देहान्त पश्चात्, पर्षदीय पत्रांक 473 दिनांक 19.06.2012 एवं पत्रांक 2089 दिनांक 09.03.13 द्वारा ग्यारह स्थानीय व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित एवं स्वच्छ छवि के हों, नामों की सूची माँग की गई थी। पत्रांक 1240/दिनांक 11.09.13 द्वारा अंचलाधिकारी, पण्डौल, मधुबनी ने न्यास समिति के गठन हेतु सदस्यों के नामों की अनुशंसा की है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उप—विधि सं0—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए मधुबनी जिलान्तर्गत श्री मुरली मनोहर जी ठाकुरवाड़ी, ग्राम—चाँदी टोल दहिवत माधोपुर, अंचल—पण्डौल की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री मुरली मनोहर जी ठाकुरवाड़ी न्यास” ग्राम—चाँदी टोल दहिवत माधोपुर, अंचल—पण्डौल, जिला—मधुबनी होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री मुरली मनोहर जी ठाकुरवाड़ी न्यास समिति” ग्राम—चाँदी टोल दहिवत माधोपुर, अंचल—पण्डौल, जिला—मधुबनी होगी जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय—व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	श्री गोपीकांत ठाकुर पे0 स्व0 द्वारिका ठाकुर, ग्राम-भिटठी	—	अध्यक्ष
(2)	श्री राज किशोर ठाकुर पिता श्री ब्रज किशोर ठाकुर, ग्राम-शंभुआर	—	उपाध्यक्ष
(3)	श्री सुनील कुमार ठाकुर पे0 स्व0 दुर्गानन्द ठाकुर, ग्राम-चांदी टोल	—	सचिव
(4)	श्री सत्यनारायण ठाकुर पे0 स्व0 पलकधारी ठाकुर, ग्राम-भिटठी	—	कोषाध्यक्ष
(5)	श्री शंकर ठाकुर पे0 स्व0 द्वारिका ठाकुर, ग्राम-भिटठी	—	सदस्य
(6)	श्री नन्दन ठाकुर पे0 स्व0 सीताराम ठाकुर, ग्राम-शंभुआर	—	सदस्य
(7)	श्री अमर नाथ ठाकुर पिता श्री नागेश्वर ठाकुर, ग्राम-शंभुआर	—	सदस्य
(8)	श्री गणेश प्रसाद सिंह, पे0 स्व0 रूप नारायण सिंह, ग्राम-शंभुआर	—	सदस्य
(9)	श्री सतीश कुमार ठाकुर, पे0 स्व0 गंगा ठाकुर, ग्राम-भिटठी	—	सदस्य
(10)	श्री चन्द्रेश्वर पाण्डेय पिता श्री राधाकृष्ण पाण्डेय, ग्राम-भिटठी	—	सदस्य
(11)	श्री रंजित तिवारी पे0 स्व0 सचितानन्द तिवारी, ग्राम-भिटठी	—	सदस्य

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 15.10.2013 से पाँच वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 86-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>